

## प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 20.11.2022

### चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा-कारतूस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना लालगंज)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने व अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु दिये जा रहे निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 20.11.2022 को थानाध्यक्ष लालगंज श्री कमलेश पाल मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के अमांवा चौराहा के आगे बैरियर के पास से एक ऑल्टो कार में सवार तीन व्यक्तियों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 698/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त ऑल्टो कार के वैध प्रपत्र न दिखाने पर वाहन को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01. सुनील कुमार वैश्य उर्फ लवल पुत्र शारदा प्रसाद वैश्य निवासी ग्राम सांगीपुर थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
02. शुभम वैश्य पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम सांगीपुर थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
03. संतोष सिंह पुत्र इंद्रमणि सिंह निवासी ग्राम धूरीपुर हण्डौर थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

### बरामदगी:-

1. एक अदद तमंचा 12 बोर
2. एक अदद तमंचा 315 बोर
3. तीन अदद कारतूस जिंदा 12 बोर
4. दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
5. एक अदद अल्टो कार नंबर HR 03 H 8987

पुलिस टीम:- थानाध्यक्ष कमलेश कुमार पाल मय टीम थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

### हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कंधई)

जनपद के थाना कंधई के उ0नि0 श्री रमेश सिंह मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 453/2022 धारा 323, 504, 506, 307 भादंवि से संबंधित दो वांछित अभियुक्त 1. मो0 मेराज पुत्र मो0 शब्बीर 2. मो0 जाहिद पुत्र मो0 शब्बीर निवासीगण ईशनपुर थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के भरथीपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

#### **04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना दिलीपपुर)**

जनपद के थाना दिलीपपुर के थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान अ0सं0 46/19 धारा 147, 148, 323, 504, 427 भादवि से सम्बन्धित दो वारण्टी अभियुक्त 01. मो0 सईद 02. मो0 शरीफ पुत्रगण रफीउद्दीन निवासीगण खमपुर थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, उ0नि0 श्री सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मु0नं0 1648/06 धारा 379, 411, 504, 506 भादवि से संबंधित एक वारण्टी अभियुक्त उदयराज सिंह पुत्र मुरली सिंह निवासी सोनाही थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, इसी क्रम में उ0नि0 श्री बलबीर सिंह मय हमराह द्वारा मु0नं0 2272/12 धारा 379, 506 भादवि से संबंधित एक वारण्टी अभियुक्त हरिकेश पुत्र देवतादीन निवासी दिलीपपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

#### **01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना महेशगंज)**

जनपद के थाना महेशगंज के उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 234/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि से संबंधित एक वांछित अभियुक्त शिवमूरत पुत्र बचनलाल यादव निवासी ग्राम मरदानपुर पोस्ट मनौरी जनपद प्रयागराज को थाना क्षेत्र महेशगंज के बरोरिकपुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।